

रजिस्टर्ड डाक ए.डी. द्वारा

: आयुक्त (अपील -I) का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, :  
: सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, :  
: आंबावाडी, अहमदाबाद- 380015. :

क फाइल संख्या : File No : V2(39)68/Ahd-III/2015-16/Appeal-I

ख अपील आदेश संख्या : Order-In-Appeal No.: AHM-EXCUS-003-APP-151-16-17

दिनांक Date : 28.10.2016 जारी करने की तारीख Date of Issue 10/11/16

श्री उमाशंकर आयुक्त (अपील-I) द्वारा पारित

Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-I) Ahmedabad

ग \_\_\_\_\_ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I आयुक्तालय द्वारा जारी मूल  
आदेश सं \_\_\_\_\_ दिनांक : \_\_\_\_\_ से सृजित

Arising out of Order-in-Original: 39/CE/Ref/DC/2015 Date: 06.11.2015  
Issued by: Deputy Commissioner, Central Excise, Din: Kalol, A'bad-III.

घ अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का नाम एवं पता

Name & Address of the Appellant & Respondent

M/s. Umasree Textplast Pvt. Ltd.

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे  
बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

Any person aggrieved by this Order-In-Appeal may file an appeal or revision application, as  
the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way :

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

Revision application to Government of India :

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा अंतर्गत नीचे बताए गए मामलों के बारे में  
पूवोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अवर सचिव, भारत सरकार,  
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली : 110001 को  
की जानी चाहिए।

(i) A revision application lies to the Under Secretary, to the Govt. of India, Revision  
Application Unit Ministry of Finance, Department of Revenue, 4<sup>th</sup> Floor, Jeevan Deep Building,  
Parliament Street, New Delhi - 110 001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the  
following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid :

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब ऐसी हानि कारखाने से किसी भण्डागार या अन्य कारखाने  
में या किसी भण्डागार से दूसरे भण्डागार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भण्डागार या भण्डार में  
चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भण्डागार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो।


(ii) In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a  
warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of  
processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse.

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क  
कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामलों में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित  
है।

(b) In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside  
India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any  
country or territory outside India.

(ग) यदि शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर (नेपाल या भूटान को) निर्यात किया गया  
माल हो।

(C) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of  
duty.



ध अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

(d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपत्र संख्या इए-8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनांक से तीन मास के भीतर मूल-आदेश एवं अपील आदेश की दो-दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35-इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर-6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रुपये या उससे कम हो तो रुपये 200/- फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/- की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:-  
Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35- एबी/35-इ के अंतर्गत:-

Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-

(क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. 3. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं


(a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.

(ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ-20, न्यू मैटल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघानी नगर, अहमदाबाद-380016.

(b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपत्र इए-3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणों की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/- फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रजिस्टार के नाम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registrar of a branch of any



nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner notwithstanding the fact that the one appeal to the Appellate Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रु.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention is invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्टेट) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1984 की धारा 34फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-2) अधिनियम 2014(2014 की संख्या 24) दिनांक: 06.08.2014 जो की वित्तीय अधिनियम, 1984 की धारा 23 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " माँग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकम
- (ii) सेनवैट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम

→ आगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होंगे।


For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

→ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

(6)(i) इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

(6)(i) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."



ORDER-IN-APPEAL

M/s. Umashree Texplast Private Limited, 728/1, Village Moti Bhoyan, Gota Road, Taluka Kalol, Dist. Gandhinagar, Gujarat, [for short the 'appellant'] has filed this appeal against OIO No. 39/CE/Ref/DC/2015 dated 06.11.2015, passed by the Deputy Commissioner, Central Excise, Kalol Division, Ahmedabad-III Commissionerate [for short - 'adjudicating authority'].

2. Briefly, the genesis of the dispute is that the appellant vide his letter dated 6.09.2010, informed the department of having availed CENVAT credit of Rs. 42,41,622/-. Thereafter, vide his letter dated 1.4.2011, it was intimated by the appellant that he had reversed the said credit, under protest, as the availment of CENVAT credit was not free from doubt. The CENVAT credit, was availed in respect of inputs received from M/s. Reliance Industries Ltd, during the period 2007-2008 and 2008-2009. Department, thereafter, issued a show cause notice dated 26.8.2011, proposing recovery of the CENVAT credit of Rs. 35,86,656/-, wrongly availed along with interest and penalty. The notice also proposed vacation of the protest, lodged by the appellant.

3. The aforementioned notice was adjudicated vide OIO No. AHM-CEX-003-ADC-041-11 dated 12.10.2011, wherein he confirmed the recovery of CENVAT Credit wrongly availed. On an appeal being filed before the Commissioner(A), the OIO was upheld. The Commissioner(A) further imposed penalty on the appellant holding that the original adjudicating authority had erred in not imposing penalty. On the dispute being assailed before the Hon'ble Tribunal, the confirmation of the CENVAT credit wrongly availed was set aside, vide Order No. A/11150/2015 dated 28.7.2015.

4. The appellant thereafter, filed a refund of Rs. 42,41,622/-, in respect of CENVAT credit reversed under protest, consequent to the order of the Tribunal dated 28.7.2015. The adjudicating authority vide his impugned OIO dated 6.11.2015, sanctioned the refund of Rs. 35,88,656/- but rejected the refund of Rs. 6,54,966/-.

5. The appellant feeling aggrieved, has filed this appeal, against the rejection of an amount of Rs. 6,54,966/-, on the following grounds:

- The department has nowhere disputed the reversal of CENVAT credit of Rs. 42,41,622/-;
- The adjudicating authority has not given reasons as to why the entire refund of Rs. 42,41,622/- was not sanctioned;
- that the entire amount was actually debited and should have been refunded and not the amount demanded in the show cause notice;
- that they wish to rely on the case law of Suncity Aloys Private Limited [2007(218 ELT 174)].



D

6. Personal hearing in the matter was held on 19.10.2016. Shri M.H.Raval, Consultant, appeared on behalf of the appellant and reiterated the arguments made in the grounds of appeal.


7. I have gone through the facts of the case, the grounds of appeal and the oral averments, raised during the course of personal hearing.

8. The issue to be decided is whether the adjudicating authority was correct in rejecting the refund of Rs. 6,54,966/- or otherwise.

9. The facts which are not in dispute is that the appellant had reversed the CENVAT credit of Rs. 42,41,622/-, under protest. The notice issued by the department as is brought on record was only for Rs. 35,86,656/-. The progress of the dispute, consequent to the issue of show cause notice, is not being repeated since it is already mentioned in brief in paras, *supra*. There is nothing on record in the earlier OIO or the impugned OIO, suggesting that the amount of Rs. 6,54,966/- [Rs. 42,41,622/- (less) Rs. 35,86,656/-], which stands rejected, was in dispute. It was imperative that a notice ought to have been issued even for Rs. 6,54,966/- [which was reversed under protest], in case the department felt that the CENVAT credit was wrongly availed.

10. The contention of the adjudicating authority in the impugned OIO that since the Tribunal's order was only in respect of Rs. 35,86,656/-, the amount of Rs. 6,54,966/-, was inadmissible for grant of refund. The adjudicating authority, in arriving at this finding missed out the fact that the disputed amount i.e. Rs. 6,54,966/-, was reversed; that no show cause notice was given in respect of this amount [nothing is available on record, in this regard]; and that the CENVAT credit of the disputed amount was reversed under protest. It is therefore, not understood as to why the refund was rejected, when the amount of CENVAT credit was not disputed in the first place. Hence, the rejection of the refund is not legally tenable. Moreover, since the refund is in respect of CENVAT credit reversed under protest, the limitation as per Section 11B of the Central Excise Act, 1944 would not be applicable in view of the second proviso to the said section.

11. In view of the foregoing, the original order dated 6.11.2015 rejecting the refund of Rs. 6,54,966/- is set aside. The appeal is allowed subject to the adjudicating



authority carrying out a detailed verification and satisfying himself of the fact, that no show cause notice has been issued in respect of the said amount.

12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।  
12. The appeal filed by the appellants stands disposed of in above terms.

*उमा शंकर*  
(उमा शंकर)  
आयुक्त (अपील्स - I)

Date : 28.10.2016

Attested by

*Vinod Lukose*  
(Vinod Lukose)  
Superintendent (Appeal-I)  
Central Excise  
Ahmedabad

BY R.P.A.D.

To,

M/s. Umashree Texplast Private Limited,  
728/1, Village Moti Bhoyan,  
Gota Road,  
Taluka Kalol,  
Dist. Gandhinagar,  
Gujarat.



Copy to:-

1. The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad Zone, Ahmedabad.
2. The Commissioner, Central Excise, Ahmedabad-III.
3. The Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise Kalol division, Ahmedabad-III.
4. The Additional Commissioner, System, Central Excise, Ahmedabad-III.
5. Guard File.
6. P.A.